

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक जनवरी 19, 2023

!!□ आज दिनांक 19.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक ।

2. महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई ।

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-* जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 150 वाहनों का चालान किया गया।

4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी । तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 00 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

6. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके । तथा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 91 व्यक्तियों को धारा 34 पुलिस अधिनियम में वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र अदालद नि० छपवा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 22/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त विजय बहादुर पुत्र गजेन्द्र यादव नि० महरा थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 07/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त पन्ने लाल पुत्र मिठाई नि० मोहदीनपुर सोरहरिया थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 18/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त विशाल साही पुत्र गिरजा शंकर सिंह नि० बीजापार खास सिसवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 45 पाउच बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 22/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

8. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. विरेन्द्र पुत्र तरेसन, 2. अजय पुत्र अमेरिका, 3. विजय पुत्र अमेरिका, 4. रवि साहनी पुत्र चुलाही साहनी, 5. प्रिजेश पुत्र विरेन्द्र निवासीगण ग्राम व थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-निल/23 धारा ¾ गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विरेन्द्र यादव पुत्र रामबहादुर यादव निवासी ग्राम हनुमानगढ़िया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-निल/23 धारा ¾ गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

9. आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त अनिरुद्ध पुत्र स्व० रामाश्रय निवासी वार्ड नं० 2 नगर पंचायत घुघली थाना घुघली के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 34/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

*10. *विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 08 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

*11. *जनपद में 18/19.01.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 26 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।*

12.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।